

भारत का राजपत्र
The Gazette of India



असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 307] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 20, 1978/आश्विन 28, 1900
No. 307] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 1978/ASVINA 28, 1900

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह छलन संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

(संस्कृति विभाग)

अधीक्षक

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 1978

सा. का. नि. 506.(अ).—महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एतद्वारा बम्बई
में अपरावशेषों के निर्यात के लिए गठित विशेषज्ञ-सलाहकार समिति में निम्नलिखित
परिवर्तन करते हैं :—

1. श्री ज. एस. निगम, अधीक्षण पुरातत्वविद्, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण साइन
कोर्ट, बम्बई अब संयोजक होंगे, और

- 2 डा. ए. पी. जमखेकर, निदेशक, पुरातत्वा एवं संग्रहालय विभाग, समाज शिक्षण मन्दिर, आदर्श नगर, वर्ली, बम्बई कीमत समिति के वैकीत्यक संयोजक होंगे।

[सं. 20/40/78-पुरा.]

म. न. देशपाण्डे, महानिदेशक,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एवं पर्वन संयुक्त सचिव

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

(Department of Culture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 1978

G.S.R. 506(E).—The Director General, Archaeological Survey of India hereby makes the following changes in the constitution of the Experts Advisory Committee for the Export of Non-Antiquities at Bombay :—

1. Shri J. S. Nigam, Superintending Archaeologist, Archaeological Survey of India, Sion Fort, Bombay shall henceforth be the Convenor, and
2. Dr. A. P. Jamkhedkar, Director, Department of Archaeology and Museum, Samaj Shikshan Mandir, Adarsh Nagar, Worli, Bombay shall be the Alternate Convenor of the said committee.

[No. 20/40/78-Ant.]

M. N. DESHPANDE, Director General
Archaeological Survey of India
and Ex-Officio Joint Secretary